JBM Auto Limited

Plot No. 133, Sector 24, Faridabad - 121 005 (Haryana)

T: +91 - 129-4090200 F: +91 - 129-2234230 W: www.jbmgroup.com

BSE Limited

Dalal Street.

Mumbai - 400001

Script Code: 532605

E: secretarial.jbma@jbmgroup.com

JBMA/SEC/2023-24/60 30th October, 2023

Phiroze Jeejeebhoy Tower,



Listing Department

The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400051 Symbol: JBMA

Sub:

Submission of Newspaper Advertisements under Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Descriptions")

Regulations")

Ref:

Intimation for Newspaper Advertisement

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI Listing Regulations, please find enclosed herewith, copies of the newspaper advertisements published in Business Standard (Hindi) and Business Standard (English) in Delhi Edition dated 30th October, 2023 regarding the publication of Un-audited Financial Results of the Company (Standalone & Consolidated) for the 2nd quarter and half year ended 30th September, 2023 approved at the meeting of the Board of Directors held on 28th October, 2023.

You are requested to take the above disclosures on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For JBM Auto Limited

Sanjeev Kumar Company Secretary & Compliance Officer M No. A18087

Encl.: As above

Auto / miteo

Corp. Office: Plot No. 9, Institutional Area, Sector 44, Gurgaon- 122003 (Hr.) T:+91-124-4674500, 4674550, F: +91-124-4674599 Regd. Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110 019 T: +91 11 26427104, F: +91 11 26427100

CIN: L74899DL1996PLC083073

McLeod set to focus on Uganda, India estates after Vietnam exit

ISHITA AYAN DUTT

Kolkata, 29 October

One of the largest bulk tea producers in the world, McLeod Russel will focus on India and Uganda plantations after an exit from the loss-making Vietnam venture.

\$2.15 million.

The Vietnam operations were er of tea in the world, after China and

sidiary, Phu Ben Tea Company Ltd (PBTCL), and the deal is expected to be completed by December 24.

McLeod sources said Vietnam does not have its own auction system and excess supply in Africa has had a direct bearing on prices. "It's at the The company recently signed an lower strata of quality buying. If agreement for selling its business in prices are low in Africa, then in Vietnam to TLK Agriculture Joint Vietnam they are even lower."

Kenya is the third largest produc-

The slide in prices has reflected on PBTCL operations. During 2022, the company incurred loss (both pretax and post-tax) of \$2.91 million Stock Company of Vietnam for McLeod has three estates in Vietnam. against loss of \$4.51 million in 2021, leading to impairment in investment.

million kg in 2021.

Vietnam was part of a string of acquisitions by McLeod. In 2009, the company entered Vietnam by acquiring 100 per cent in PBTCL. A year later, it stepped into Uganda and then

At its peak in 2013-2014, McLeod's production stood at 112.23 million kg.

The estimated tea crop from the McLeod stable in 2023 is about 69 The big acquisition, however, million kg across India, Vietnam and in discussion with lenders for Uganda. In FY20, it exited Rwanda.

much larger than Vietnam, at about 21 million kg from nine estates.

now would be on Uganda and India. In India, McLeod has about 33 estates

However, in August, McLeod reached an understanding with electrode paste maker Carbon Resources, owned by the Jalans, for sale of estates in India. It has been

The deal size is around ₹700 crore and would give Carbon 15 gardens with an estimated production of

India a key mkt, will continue to invest: Honda

Honda Motor will continue to invest in India, a key market for its future growth strategy while also accelerating electrification of vehicles in line with its global plans to achieve carbon neutrality by 2050, Honda Motor President and CEO Toshihiro Mibe said. At the global level, Honda is open for collaboration with other firms if it offers a "win-win" situation, he added.

(₹ in million)

(I transiere Company/Applicant Company No.-3)
Their respective Shareholders and Creditors
IFor the sake of brevity Transferor Company No.1 and
Transferor Company No. 2 are hereineller collectively
referred to as "Transferor Companies", and further the
Applicant Company No. 1, Applicant Company No.
2, and Applicant Company No. 3 are hereinater
oblectively referred to as the "Applicant Companies"]
ADVERTISEMENT OF NOTICE OF MEETING OF
THE EQUITY SHAREHOLDERS, SECURED
CREDITORS AND UNSECURED CREDITORS OF
M/S SAKSHAM CONTAINERS PRIVATE LIMITED
Notice is hereby quiven that by an order dated

CREDITORS AND INSECURED CREDITORS OF MS SAKSHAM CONTAINERS PRIVATE LIMITED Notice is hereby given that by an order dated 16.10.2023, the Horble National Company Lew Tribunal. New Delhi, Bench-IV ("NCLI") has directed a meeting to be held of the equity shareholders, secured creditors and unsecured creditors of Mis Saksham Containers Limited ("Company), for the purpose of considering, and fithought fil, approving with or without modification, the scheme of amalgamention amongst Wis Ravi Metal Products Private Limited, Mis Mayank Containers Private Limited and Mis Saksham Containers Private Limited and Saksham Containers Limited and Saksham Containers Private Limited and Saksham Containers Private Limited and Saksham Containers Private Limited and Saksham Containers Limited Saksha

will be subject to the subsequent approval of the NCLT. In pursuance of the said order and as approved by the Chairperson, further notice is hereby given that a meeting of the equity shareholders, secured creditiors and unsecured creditors of M/s Saksham Containers Private Limited, will be held physically on November 30° 2032, at 2:00 pm, 3:00 pm and 4:00 pm, respectively, at the registered address of the Company at A-3/22, Paschim Vihar, New Delhi, India, 110063. The saforesaid equity shareholders, secured creditors and unsecured creditors are requested to attend. Copies of the said scheme of amalgamation, and of the statement under section 230 can be obtained free of charge at the registered office of the Company.

phalines ree or utings of the Company, of the Company, of the Company, Persons entitled to attend and vote at the meeting may vote in person or by proxy, provided that all the registered office of the Company at A-3/22, Paschim Vihar, New Delh-10083, India, not later than 48 hours before the meeting. Forms of proxy are available at the registered office of the ny. October 27, 2023

under the fold of step-down sub- India. Production in Kenya has been dropped to 0.63 million kg from 3.24 respectively. consistently up in the last few years, impacting prices. In 2019, Kenva's production stood at 458.85 million kg, but has remained above the 500 million kg-mark since then. In 2022, it was 530 million kg.

Production during the period Tea followed in 2006 and 2007, McLeod has indicated that the focus 17-18 million kg.

Rwanda in 2011.

was in the domestic market in 2005. It had then gained control of over 17 estates under Williamson Tea Assam. Doom Dooma and Moran

But paring debt has been in focus for the last few years, leading the company to sell estates.

The operations in Uganda are

with a crop of 43 million kg.

debt resolution.

Before the National Company Law Tribunal, New Delhi Company Application No. (CAA) 63 of 2023 In the matter of the Companies Act, 2013 And In the matter of Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Companies (Compromises, Arrangements and Arnalgamations) Rules, 2016 And In the matter of Scheme of Amalgamation Amongst Ravi Metal Products Private Limited (Transferor Company No.1/Applicant Company No.-1) And Mayank Containers Private Limited (Transferor Company No.2/Applicant Company No.-2) And Saksham Containers Private Limited (Transferoe Company No.3) And Their respective Shareholders and Creditors LODHA BUILDING A BETTER LIFE

HSIIDC announces e-Auction of Industrial Plots at IE Panchkula Phase-I & Phase-II*

*Developed by HSVP and now transferred to HSIIDC

(under General Category)

District	Tentative Plot Sizes (SQM)	Allotment Rate# (Rs. per sqm) (Tentative)
Panchkula	1000	Rs. 67650/- psm

Tentative rate of allotment for FY 2023-24

- Registration/EMD Payment Start Date & Time: 23.10.2023 from 9.00 am
- Registration/EMD Payment End Date & Time: 21.11.2023 at 11.59 pm
- Registration and e-Auction Portal: www.hsiidc.bidx.in

10% rebate on lumpsum payment of plot cost within 45 days of issuance of Regular Letter of Allotment; 5% rebate on lumpsum payment of plot cost within 90 days of issuance of Regular Letter of Allotment; 3% rebate on lumpsum payment of plot cost within 120 days of issuance of Regular Letter of Allotment; 1.5% rebate on lumpsum payment of plot cost within 150 days of issuance of Regular Letter of Allotment; there will be no rebate upon lump sum payment after 150 days# Provision for 20% rebate on plot cost (Industrial) to SC Category allottees#

Wherever the basic minimum infrastructure is yet to be developed, the allotment shall be without

RESERVE PRICE AND BID PRICE ON THE E-AUCTION PORTAL WOULD BE INDICATED ON PER SQUARE METER BASIS

The name of the bidder to be given at the time of registration shall be the same as in PAN Card # For further details, the intended bidders may refer the updated 'e-Auction Brochure' available on website of the Corporation at www.hsiidc.org.in / e-Auction portal http://hsiidc.bidx.in

Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation Limited

Regd. Office: C-13 & 14, Sector-6, Panchkula, Ph. 0172-2590481-83, E-mail: contactus@hsiidc.org.in, Website: hsiidc.org.in

MACROTECH DEVELOPERS LIMITED

CIN: L45200MH1995PLC093041

Registered Office: 412, Floor- 4, 17G, Vardhaman Chamber, Cawasii Patel Road, Horniman Circle, Fort, Mumbal - 400 001 Corporate office: Lodha Excelus, L 2, N M Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbal - 400011

Tel: +9122 6773 7373; Email: Investor.relations@lodhagroup.com

	EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023							
Sr.			Quarter ended	1	Six Month	s ended	Year ended	
No.	Particulars	30-Sep-23	30-Jun-23	30-Sep-22	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total Income from Operations	17,551	16,718	17,612	34,269	44,370	96,112	
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax and exceptional items	2,652	2,348	(20,833)	5,000	(17,562)	(7,249)	
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax	2,652	2,348	(9,059)	5,000	(5,788)	4,525	
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax	2,028	1,792	(9,329)	3,820	(6,617)	4,895	
5	Total Comprehensive Income/ (Loss) for the period [(Comprising Profit /							
	(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income/							
	(Loss) (after Tax)]	1,999	1,789	(9,403)	3,788	(6,783)	4,739	
6	Equity share capital (Face Value of ₹ 10 each)	9,644	9,640	4,816	9,644	4,816	4,818	
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited							
	Balance sheet of the previous year						117,476	
8	Earnings Per Share (EPS) (amount in ₹)							
	(not annualised except year end EPS)							
	Basic	2.09	1.85	(19.53)	3.95	(13.75)	5.05	
	Diluted	2.09	1.85	(19.53)	3.94	(13.75)	5.05	
9	Debt Equity Ratio	0.69	0.71	0.95	0.69	0.95	0.74	
10	Debt Service Coverage Ratio (in times)	0.88	0.56	0.78	0.76	0.90	0.98	
11	Interest Service Coverage Ratio (in times)	2.11	2.05	2.29	2.08	1.82	2.25	

The specified items of the standalone financial results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2023 are given below:

				STANDA	LONE		
Sr. No.	Particulars	1	Quarter ended		Six Month	s ended	Year ended
NO.		30-Sep-22	30-Jun-23	30-Sep-22	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	17,546	15,016	17,413	32,562	44,646	94,804
2	Net Profit before Tax and Exceptional Items	2,338	1,759	(20,902)	4,097	(17,030)	(7,648)
3	Net Profit / (Loss) before Tax	2,338	1,759	(9,129)	4,097	(5,257)	4,126
4	Net Profit/ (Loss) after Tax	1,761	1,353	(9,388)	3,114	(6,526)	4,560
5	Total Comprehensive Income/ (Loss)	1,761	1,340	(9,392)	3,101	(6,544)	4,531

Place: Mumba

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Half Yearly Financial Result filed with the Stock Exchange under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (*Listing Regulations'). The full format of the Quarterly / Half Yearly Financial Results are available on the websites of BSE Limited i.e. www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited i.e. www.nseindia.com and of the Company i.e. www.lodhagroup.in.
- 2 For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s)viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and that of the Company's website www.lodhagroup.in

For Macrotech Developers Limited Abhishek Lodha Managing Director and CEO Date: 28-October-2023



FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2023

			STANDALONE		CONSOLIDATED			
Sr. No.		Quarter Ended 30/09/2023	Half Year Ended 30/09/2023	Quarter Ended 30/09/2022	Quarter Ended 30/09/2023	Half Year Ended 30/09/2023	Quarter Ended 30/09/2022	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	
1	Total Income from Operations	815.21	1,666.72	1,021.48	1,238.82	2,188.87	1,039.98	
2	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and/or Extraordinary Items and Share of Profit/(loss) of Joint venture & Associates)	14.46	40.48	51.63	58.32	98.49	51.76	
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items and Share of Profit/(loss) of Joint venture & Associates)	14.46	40.48	51.63	60.23	98.57	50.22	
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extrordinary items)	10.54	29.97	38.20	48.89	79.17	36.26	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) attributable to the owners of the company	10.51	29.90	37.94	44.10	74.27	40.24	
6	Equity share capital	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	
7	Earning Per Share(of ₹ 2/each.) (For continuing operations)							
	a) Basic (in ₹)	0.89	2.53	3.23	3.74	6.29	3.06	
	h) Diluted (in ₹)	0.00	2.52	2.02	2.74	6.00	2.06	

Place: Gurugram (Haryana)

Dated: 28th Oct, 2023

1 The above is an extract of the detailed format of quarter and half year ended financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Half Year ended financial results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website at www.jbmgroup.com.

For JBM Auto Limited

Nishant Arva

Vice Chairman and Managing Director DIN: 00004954 JBM AUTO LIMITED

CIN No: L74899DL1996PLC083073 Email: Corp@jbmgroup.com; Website: www.jbmgroup.com Ph. 011-26427104-06; Fax: 011-26427100

Regd. Office: 601, Hemkunt Chamber, 89, Nehru Place, New Delhi-110 019



Score big with India's trusted lending partner

> KEY FINANCIAL **HIGHLIGHTS - H1 FY24**

DISBURSALS

LOAN BOOK ₹1.35.521 Cr | +32% ₹44,618 Cr | +35%#

PROFITS AFTER TAX

₹1.474 Cr

0.3% | 0.4% | Credit Cost NNPA

TATA CAPITAL

Count on us

RETAIL FOCUSED NBFC 85%+ 76%

Retail + SME Book

DIGITAL FIRST 97% **92%**

ASSET QUALITY



Secured Book

RATED BY LEADING RATING AGENCIES



VISIT US NOW!

73%

Personal Loans | Business Loans | Housing Loans | Used Car Loans | Two Wheeler Loans | Loan Against Property | Micro Finance | Loan Against Securities | Wealth Services | Channel Finance | Leasing | Corporate Loans | Cleantech Finance | Private Equity

The financial results have been subjected to a limited review by the Statutory Auditors; #excludes disbursals for IPO funding & channel finance; "excludes one-time items Housing Loans are brought to you by Tata Capital Housing Finance Limited, Cleantech Finance is brought to you by Tata Cleantech Capital Limited. Wealth Services are offered by Tata Capital Financial Services Limited (TCFSL). Private Equity Advisory Services are offered by Tata Capital Limited. All other mentioned loan products/solutions are brought to you by TCFSL All loan products/solutions are at the sole discretion of the respective entities. TCFSL is registered with the Association of Mutual Funds in India as a Mutual fund Distributor bearing ARN No. 84894. Private Equity Funds are registered with SEBI as Domestic Venture Capital Funds



टीसीएनएस क्लॉथिंग कम्पनी लिमिटेड

सीआईएन : L99999DL1997PLC090978

पंजीकृत कार्यालय : 119, न्यू मंगलापुरी, डब्ल्यू हाउस, मंडी रोड, सुल्तानपुर, महरौली, नई दिल्ली-110030 कॉर्पोरेट कार्यालय : 119 एवं 127, डब्ल्यू हाउस, नील गगन टॉवर, मंडी रोड, सुल्तानपुर, महरौली, नई दिल्ली-110030 दूरभाष : 011-42193193; ई-मेल : investors@tcnsclothing.com; वेबसाइट : www.wforwoman.com

30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

			समाप्त तिमार्ह	ì	समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष	
	विवरण	30 सितम्बर, 2023 (अलेखापरीक्षित)	30 जून, 2023 (अलेखापरीक्षित)	30 सितम्बर, 2022 (अलेखापरीक्षित)	30 सितम्बर, 2023 (अलेखापरीक्षित)	30 सितम्बर, 2022 (अलेखापरीक्षित)	31 मार्च, 2023 (लेखापरीक्षित)	
1.	प्रचालनों से कुल आय	2,256.73	2,440.66	3,505.07	4,697.39	6,268.97	12,015.89	
2.	अवधि हेतु कर पूर्व निवल लाभ/(हानि)	(1,771.94)	(492.82)	100.57	(2,264.76)	126.48	(312.14)	
3.	अवधि हेतु कर पश्चात निवल लाभ/(हानि)	(1,363.43)	(369.78)	76.36	(1,733.21)	100.71	(175.47)	
4.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय	(1,362.95)	(367.62)	82.41	(1,730.57)	109.80	(166.99)	
5.	प्रदत्त इक्टिटी शेयर पूंजी (रु. 2 प्रति शेयर अंकित मूल्य)	126.42	126.32	123.26	126.42	123.26	123.45	
6.	प्रकृति में सम्पूर्ण इंस्ट्रुमेंट इक्किटी सहित अन्य इक्किटी						5,993.58	
7.	आय प्रति शेयर (रु. 2 प्रति शेयर अंकित मूल्य) (वार्षिकीकृत नहीं)							
	(क) बेसिक (रु.)	(21.45)	(5.87)	1.2	(27.27)	1.58	(2.75)	
	(ख) डाइल्यूटेड (रु.)	(21.45)	(5.87)	1.17	(27.27)	1.55	(2.75)	

अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की टिप्पणी :

उपर्युक्त परिपत्र सं. CIR/CFD/FAC/62/2016 दिनांक 5 जुलाई, 2016 द्वारा संशोधित के अनुसार सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं अन्य प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दाखिल समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों www.bseindia.com तथा www.nseindia.com एवं साथ ही कम्पनी की वेबसाइट www.wforwoman.com पर उपलब्ध है।

30 सितम्बर, 2023 को आस्तियों तथा दायित्वों का अलेखापरीक्षित विवरण

३० सितम्बर,	2023 को समाप्त	छमाही हेतु रोकड़
प्रवाह	का अलेखापरीक्षि	त विवरण

(जब तक अन्यथा निर्दि	टन हो सभी राशि	ायां रू. मिलियन में)	में) (जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो सभी राशियां रू. मिलियन					
	fi	तिथि		समाप्त	छमाही			
विवरण	30 सितम्बर,	31 मार्च,	विबरण	30 सितम्बर,	30 सितम्बर,			
Idatol	2023 (अलेखापरीक्षित)	2023 (लेखापरीक्षित)		2023 (अलेखापरीक्षित)	2022 (अलेखापरीक्षित			
	(अलखापसाक्त)	(लखापसादात)		(अलखायसादारा)	(अलखापसाक्षत			
आस्तियां			A. प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
गैर-चालू आस्तियां			कर पूर्व (हानि)/लाभ	(2,264.76)	126.48			
(a) सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण	647.64	677.48	निम्नलिखित हेतु समायोजन					
(b) राइट ऑफ यूज आस्तियां	4,827.93	4,496.35	मूल्यहास और परिशोधन च्यय	623.14	527.62			
(c) प्रगतिशील कार्य पूंजी	3.47	1.20	परिभाषित लाभ देवता का पुनर्माप	-	12.15			
(d) अन्य अमूर्त आस्तियां	15.83	21.28	बैंक के साथ मांग जमाओ पर ब्याज आय वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ	(0.11)	(9.63)			
(e) वित्तीय आस्तियां - अन्य वित्तीय	556.06	566.40	वित्तीय लागत	332.26	204.47			
आस्तियां			बिक्रीत/स्क्रैप्ड/रिटन ऑफ सम्पत्ति, संयन्त्र तथा	7.16	(5.71)			
(f) आस्थागित कर आस्तियां (निवल)	1,164.65	633.98	उपकरण पर हानि					
(g) गैर-चालू कर आस्तियां (निवल)	55.23	54.93	अपेक्षित क्रेडिट हानि और संदिग्ध प्रतिभूति जमा के लिए भत्ता (निवल)	38.97	(23.26)			
(h) अन्य गैर-चालू आस्तियां	26.46	24.75	रिटन बैक पट्टा दायित्व पर निवल लाभ	(41.89)	(7.96)			
कुल गैर-चालू आस्तियां	7,297.27	6,476.37	वित्तीय आस्तियों के उचित मूल्यांकन पर लाभ	-	(6.05)			
चालू आस्तियां	.,_,	,	कर्मचारियों को शेयर आधारित भुगतान	11.02	43.26			
(a) इन्टोंट्री			कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	(1,294.21)	860.98			
	4,348.24	4,942.40	<u> </u>					
(b) वित्तीय आस्तियां			कार्यशील पूंजी में परिवर्तनः					
(i) निवेश	-	21.25	इन्वेंट्री में कमी/(वृद्धि)	594.16	(1,222.14)			
(ii) व्यापार प्राप्य	2,324.28	2,582.41	व्यापार प्राप्य में कमी/(वृद्धि) अन्य चालू और गैर-चालू वित्तीय आस्तियों में	222.24	(641.45)			
(iii) रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य	176.70	226.07	अन्य चालू आर गर-चालू विसाय आस्तिया म कमी/(बृद्धि)	(9.01)	(73.18)			
(iv) बैंक शेष उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त	1.72	2.79	अन्य चालू तथा गैर-चालू आस्तियों में	(149.22)	(103.20)			
(v) अन्य वितीय आस्तियां	1.41	6.25	कमी/(वृद्धि)					
(c) अन्य चालू आस्तियां	761.15	605.24	अन्य वित्तीय दायित्व में वृद्धि/(कमी)	58.31	(20.40)			
•			अन्य चालू तथा गैरचालू दायित्व में गृद्धि/(कमी)	349.05	149.32			
कुल चालू आस्तियां	7,613.50	8,386.41	प्रावधानों में चृद्धि/(कमी)	19.05	10.28			
कुल आस्तियां	14,910.77	14,862.78	व्यापार देय में वृद्धि/(कमी)	324.06	633.97			
इक्विटी तथा दायित्व			प्रचालनों से (प्रयुक्त)/सृजित रोकड़	114.43	(405.82)			
इक्विटी			घटाया : आयकर वापसी/(प्रदत्त) (स्रोत पर	()	(2.52)			
(a) इक्विटी शेयर पूंजी	126.42	123.45	कटौतीकृत कर सहित)	(0.30)	(3.53)			
(b) अन्य इक्विटी	4,423.93	5,993.58	प्रचालन गतिविधियों से सृजित निवल रोकड़ प्रवाह	114.13	(409.35)			
कुल इक्विटी	4,550.35	6,117.03	B. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों हेतु भुगतान	(121.22)	(217.96)			
दायित्व	4,550.55		अमूर्त आस्तियों हेतु भुगतान	-	(1.04)			
			सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण की बिक्री से	5.95	19.65			
गैर-चालू दायित्व			आगम					
(a) वित्तीय दायित्व			चालू निवेश के क्रय से आगम	21.36	1,077.44			
(i) पट्टा दायित्व	4,576.25	4,232.40	प्राप्त ब्याज तथा लाभांश	4.27	0.89			
(ii) अन्य वित्तीय दायित्व	56.30	67.05	प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह	(89.64)	878.98			
(b) प्रावधान	175.11	159.31	C. वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह चालू उधारियों से आगम (निवल)	528.47	57.68			
(c) अन्य गैर-चालू दायित्व	4.69	7.19	कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन हेतु जारी इक्टिटी शेयरों	152.88	5.06			
कुल गैर-चालू दायित्व	4,812.35	4,465.95	के निर्गमन से आगम					
चालू दियत्व	1,012.00	,	पट्टा दायित्वों का पुनर्भुगतान (पट्टा दायित्वों	(668.64)	(588.66)			
•			पर ब्याज सहित)					
(a) वित्तीय दायित्व			पट्टा दायित्वों के अतिरिक्त प्रदत्त ब्याज	(86.57)	(17.78)			
(i) उधारियां	923.49	395.02	वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़	(73.86)	(543.70)			
(ii) पट्टा दायित्व	851.87	840.68	रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में निवल	(49.37)	(74.07)			
(iii) व्यापार देव			वृद्धि/(कमी) (A+B+C)					
(A) सूक्ष्म उद्यम तथा लघु उद्यम के कुल	1,829.22	1,757.08	वर्ष के प्रारंभ में रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य	226.07	104.08			
बकाया देय	1,627.22	1,707100	अवधि के अंत में रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य	176.70	30.01			
(B) सूक्ष्म उद्यम तथा लघु उद्यम के								
अतिरिक्त लेनदारों के कुल बकाया देय	857.55	605.63	गैर-रोकड़ वित्तीय गतिविधियां					
			- राइट ऑफ यूज आति का अर्जन	941.65	1083.49			
(iv) अन्य वित्तीय दायित्व	413.05	359.79	अवधि के अंत में रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में शामिल है					
(b) प्रावधान	10.48	10.74	– धारित रोकड़	3.27	3.50			
(c) अन्य चालू दायित्व	662.41	310.86	– बैंकों में शेष					
कुल चालू दायित्व	5,548.07	4,279.80	चालू खातों में	173.43	5.72			
कुल दायित्व	10,360.42	8,745.75	मांग जमा खातों में	-	20.79			
कुल इक्विटी तथा दायित्व	14,910.77	14,862.78	अवधि के अन्त में रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य	176.70	30.01			

अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की टिप्पणी :

1. 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए कंपनी के उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई और निदेशक मंडल द्वारा 28 अक्टूबर, 2023 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में अनुमोदित किया गया।

ये अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक 34 'अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग' ('इंड एएस 34') में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

3. निदेशक मंडल ने 5 मई 2023 को हुई अपनी बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत टीसीएनएस क्लोधिंग कंपनी लिमिटेड (अन्तरक कंपनी) और आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड (अन्तरिती कंपनी) और उनके संबंधित शेयरधारक तथा लेनदार के बीच अवशोषण द्वारा विलय के माध्यम से समामेलन की मसौदा योजना को स्वीकृति दी है। यह समामेलन अन्तरक कंपनी तथा अन्तरिती कंपनी के सशर्त एवं 'प्रभावशीलता के लिए पूर्ववर्ती शर्तों 'के अनुपालन के अध्यधीन है, जैसा कि योजना के खंड 31 और लागू कानूनों के तहत वैधानिक एवं नियामक प्राधिकरणों, संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों से अपेक्षित अनुमोदन की प्राप्ति में उल्लिखित है। योजना के प्रभावी होने पर, अन्तरिती कम्पनी के रु. 10 के अंकित मूल्य के 11 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर अन्तरक कम्पनी के रु. 2 के अंकित मूल्य के प्रत्येक 6 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के लिए

30 सितंबर,2023 को समाप्त तिमाही के दौरान, अन्तरिती कंपनी ने ओपन ऑफर के माध्यम से 18,712,577 इक्विटी शेयर और कंपनी के पूर्व प्रमोटरों से शेयरों की खरीद के माध्यम से 14,195,748 इक्विटी शेयर हासिल किए हैं, जो 30 सितंबर, 2023 को सामुहिक रूप से शेयर पूंजी का 52.06% प्रतिनिधित्व करते हैं। उपरोक्त के पूरा होने पर, आदित्य बिड़ला फैशन रिटेल लिमिटेड ने 26 सितंबर, 2023 से नियंत्रण हासिल कर लिया है और कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन गई है।

- 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान, कंपनी ने इन्वेंट्री पर अप्रचलन के प्रावधान के लिए अपने अनुमानों को संशोधित किया है। इसके परिणामस्वरूप उपभोग की गई सामग्रियों की लागत में वृद्धि हुई है और कार्य-प्रगति, स्टॉक-इन-ट्रेड और तैयार माल की इन्वेंट्री में क्रमण: 7.53 मिलियन रुपये और 453.40 मिलियन रुपये की वृद्धि हुई है, साथ ही इन्वेंट्री में 460.93 मिलियन रुपये की कमी आई है। इसके अलावा, कंपनी ने उन ग्राहकों से प्रत्याशित रिटर्न के लिए अपने अनुमानों को संशोधित किया है जिनके पास कंपनी की नीति के अनुसार सामान वापस करने का अधिकार है। इसके परिणामस्वरूप 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व में 358.57 मिलियन रुपये की कमी हुई और अन्य देनदारियों पर समान प्रभाव पड़ा और उपभोग की गई सामग्रियों की लागत में 122.95 मिलियन रुपये की कमी हुई और अन्य परिसंपत्तियों पर
- कंपनी ने 30 सितंबर, 2023 को समाप्त छमाही के दौरान कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाओं (ईएसओपी) द्वारा सृजित 2 रुपये प्रति शेयर ऑकत मूल्य के 1,487,250 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं, जो 'टीसीएनएस ईएसओपी योजना 2014-2017' के तहत दिए गए थे।.
- कंपनी भारत में मुख्य रूप से महिलाओं के परिधान और सहायक उपकरण के कारोबार में लगी हुई है। तदनुसार, कंपनी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को एक व्यावसायिक खंड के रूप में देखती है, इसलिए भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 108 - 'प्रचालन खण्ड' के अनुसार कोई अलग रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं हैं।
- 7. कंपनी (लेखापरीक्ष और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 141, 142 और अन्य सभी लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, लेखापरीक्षित समिति की सिफारिश पर 26 सितंबर, 2023 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद, डेलॉइट हास्किन्स एंड सेल एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की अनुपरिश्रित के कारण हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए प्राइस वॉटरहाउस एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एलएलपी को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। नियुक्ति शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

टीसीएनएस क्लोदिंग कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से अनंत कुमार डागा प्रबंध निदेशक

NAME CHANGE

I, Pankaj Kumar, S/O Late Binod Bihari Verma, R/FF-1, Plot No. 199, Sector-4, Vaishali, Ghaziabad- 201010 have changed my name to Pankaj Kumar Verma for all future purposes.

राष्ट्रीय कंपनी बिंदि व्यक्तिकाल, न्ह्र विकार के सन्बा कंपनी व्यक्तिन सं. (सीएए) वड बॉफ 2023 कंपनी व्यक्तिन सं. 2013 के मामले में क्रिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 230 से 232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (समझीता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम, 2016 के मामले में और

आए निम्नलिखित के बीच समामेलन की योजना के मामले **एवि मैटल प्रोडक्ट्स प्राइकेट लिमिटेड** (हस्तांतरणकर्ता कंपनी नं. 1 क्षीन

मयंक कंटेनर्स प्राइवेट <u>(लिमिटेड</u>

सबम कंटेनर्स् प्राह्वेट लिमिटेड्

और उनके संबंधित शेयरबाएक पूर्व लेनदार (सक्षिपता को वजह से हस्तावरणकर्ता कंपनी नं । एवं हस्तावरणकर्ता कंपनी नं । एवं हस्तावरणकर्ता कंपनी नं । एवं हस्तावरणकर्ता कंपनी मं 2 यहां के बाद "हस्तावरणकर्ता कंपनी नं । अगेर इसके अलाव कोवेर कंपनी नं । आवेरक कंपनी नं , और आवेरक कंपनी नं । अगेर के स्वार्धित हैं।

"आवेदक कंपनियां" के रूप में संदर्भित हैं)
मूर्यक कंट्रेन्स् प्राइनेट लिमिटेड के इविचटी
संपरकारणों की देवक की सूचना का विज्ञापन
एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय
कंपनी विधि अधिकरण ("एनसीएलटी") ने अपने आदेश
दिनांक 18.10.2023 के मान्यम से मैसस्पे रिव मैदत
प्रोडक्ट्स प्राइनेट लिमिटेड, नैसस् मयंक कंट्रेन्स प्राइनेट
लिमिटेड और मैसस् रस्तम कंट्रेन्स प्राइनेट लिमिटेड
तथा उनके संबंधित शोयरमारकों एवं नोन्यारे के बीच
समामेलन की योजना ("योजना") पर विचार करने
और यदि जरूरी हुआ तो उस्ते संशोधन या दिना
संशोधन अनुमोदित करने के वित् मयंक कंट्रेन्स प्राइनेट
लिमिटेड ("कंपनी) के इविचटी शेयरधाएकों की एक
बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये हैं।

बठक आया।जात करन क ानदश । दय ह। प्रपरोक्षत करिका निर्देशों के अनुपालन में कंपनी के इिक्यटी शेयरधारकों की बैठक के लिए अधोहस्ताक्षरी को अध्यक्ष और सुश्री मुस्कान अग्रवाल, पेशैवर कंपनी सचिव को जांचकता के रूप में नियुक्त किया गया है। उपरोक्त विर्णित योजना, यदि बैठक में अनुमोदित हो जाती है तो यह एनसीएलटी के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी।

अधीन होगी। किवा ता अनुपालन में और अध्यक्ष द्वारा अनुपोदन के अनुपाल आदेश के अनुपालन में और अध्यक्ष द्वारा अनुपोदन के अनुपार आगे एतद्वारा सुचित किया जाता है कि मयंक कंटेन्सर्प प्राइवेट लिमिटेड के इिक्वटी शेयरघारकों की एक बैठक 30 नवस्त्र 2023 को प्रात: 12.20 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ए-3/122 परिचम विहार, नई दिल्ली, चारत, 110003 में भौतिक रूप से आयोजित की जाएगी। उपरोचत कथित इविचटी शेयरघारकों से बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है। कथित समामेलन की योजना की प्रतियां और घारा 230 के तहत विवरण कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से नि:शुक्क प्राप्त किय जा सकते हैं।

निःशुक्क प्राप्त कियं जा सकते हैं। विश्वक प्राप्त कियं जा सकते हैं। व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति स्वितान रूप से या प्रॉक्सी के माध्यम से वौद दे सकता है बशतें कि निर्धारित प्रारूप में सभी प्रॉक्सीज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ए-3/122, पश्चिम किहार, नई दिल्ली-11063, मारत में बठक से 48 घंटे पूर्व जमा कियं गये हो। प्रॉक्सी फार्म कंपनी व पंजीकृत कार्यालय है।

तिथि : 26 सक्तूबर, 2023

चन्निय कंपनी विश्व अविकरण, नई दिखी के सन्ध्र कंपनी आविषन सं. (सीपूर) 33 ऑफ 2023 कंपनी अविनियम, 2013 के मामले में अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (समझीता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम, 2016 के मामले में और निम्नलिखित के बीच सामोसन की योजना के मामले में प्रित मोडक प्रोवस्था प्रावधान के प्रावन के प्रावन के प्रावन के प्रावन के प्रावन के प्रावन के स्व

आर **मयंक कंटेनर्स प्राइवेट लिनिटेक** (इस्तांतरणकर्ता कंपनी नं. 2/आवेदक कंपनी नं. 2 और

आर **सक्षम कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड** (हस्तांतरिती कंपनी/आवेदक कंपनी नं. 3 और

(इस्तांतिरिती कंपनी / आवेदक कंपनी नं. 9) और

उनके संबंधित सेयरबाएक एवं लेनचार
(शिक्षपता की वजह से हस्तांतरणकर्ता कंपनी नं. 1 एवं
हस्तांतरणकर्ता कंपनी नं. 2 यहां के बार 'हस्तांतरणकर्ता
कंपनिया' के रूप में संवर्धित हैं और इसके अलावा
आवेदक कंपनी नं. 1 आवेदक कंपनी नं. 2 और
आवेदक कंपनी नं. 3 यहां के बाद संयुक्त रूप से
'आवेदक कंपनी नं. 3 यहां के बाद संयुक्त रूप से
'आवेदक कंपनी नं. 3 यहां के बाद संयुक्त रूप से
'आवेदक कंपनी नं. 3 यहां के बाद संयुक्त रूप से
'आवेदक कंपनी नं! भें संवर्धित हैं)
'वि मैदक मोक्क्ट्रम प्राइवेट विविटेड के इक्टिटी
सेवस्तारण की बैठक की सुक्ता का विज्ञापन
एतवृद्वारा सृवित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय
कंपनी विवि आवेदकरण ('एनसीएनटी') ने अपने आदेश
दिनांक 16.10.2023 के माच्यम से मैसस् रित मैटक
प्रोडक्ट्रस प्राइवेट विविटेड, मैक्स में सेवस् कंटनसं प्राइवेट
विनिटेड और मैससं स्वाम कंटनसं प्राइवेट विनिटेड
तथा जनके संबंधित शेयरचाएकों एवं लेनचारों के बीय
समामेलन की योजना ('योजना') पर विचार करने
और यदि जरूरी हुआ तो उसे संशोधन या बिना
संशोधन अनुमोदित करने के लिए रित मेरवारण के शिव इक्टिटी येयरचारकों की बैठक के लिए अखोष्टरताखरी
को अध्यक्ष और सुभी स्वाित मिआ, पेशेवर कंपनी
सचिव को गांचकर्ता के छम्प निवान में कंपनी
कोषित को गांचकर्ता के छम्प निवान में कंपनी
संवित को गांचना ते अप में निवान विक्रा गांवित हो।
उपरोक्त वर्णित योजना, यदि बैठक में अनुमोदित हो
जाती है तो यह एनसीएलटी के अनुवर्ती अनुमोदित के
अनुवारी अनुमोवन के
अवनार आयो करवाराण सचित किया जाता है के

अधीन होगी। किष्यत होगी। किष्यत होगी। किष्यत आदेश के अनुपालन में और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन के अनुपाल आदेश के अनुपाल है कि एवि मैटल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरपाएकों ही एक बैठक 30 नवाल, 2022 को प्रात 11.30 बगे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय र—3 / 122, पश्चिम विहार, नई दिल्ली, मारत, 110083 में मौतिक छम से आयोजित की जाएगी। चपचेलत कथित होसी हो श्रीयरपाएकों से बैठक में चपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है।

किया जाता है। कथित समामेलन की योजना की प्रतिया और घारा 230 के तहत विवरण कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। ानःशुक्क प्राप्त किये जा सकते हैं। " श्रीकृत के नं उपस्थित होने और वोट देने का हकदार व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या प्रांतसी के माध्यम से वोट दे सकता है बशर्त कि निधारित प्राष्ठम में सभी प्रांतसी कंपनी के परीकृत कार्यावय ए-3/122 परिथम विहार, नई दिल्ली-110083, भारत में बैठक से 48 घंटे पूर्व जमा किये गये हो। ग्रीक्सी फार्म कंपनी पंजीकृत कार्यावय में उपलब्ध हैं। विवि : 28 सक्तूबर, 2028

बैठक के लिए नियुक्त अञ्चब

और निम्नलिखित के बीच समामुलन की योजना के मामु

प्रि मैटल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (इस्तावरणकर्ता कंपनी नं 1 /आवेटक कंपनी

उनके संबंधित बोयरजाएक एवं जेनवार (संवित्ता की वज़ ह से इस्तांतरणकर्ता कंपनी नं 1 एवं इस्तांतरणकर्ता कंपनी नं 2 एवं इस्तांतरणकर्ता कंपनी नं 2 एवं इस्तांतरणकर्ता कंपनी नं 2 एवं के बात "इस्तांतरणकर्ता कंपनी नं 2 एवं के बात "इस्तांतरणकर्ता कंपनिया" के रूप में संविधित हैं और उसके अलाव आवेदक कंपनी नं , अवंद के कंपनी मं 2 अवंद के बात सुगुत्त रूप से अलाव कंपनिया" के रूप में संवधित हैं। निसर्प स्वान कंपनिया" के रूप में संवधित हैं। निसर्प स्वान कंपनिया के रूप में संवधित हैं। निसर्प स्वान कंपनिया के रूप में संवधित हैं। निसर्प से अलाव कंपनिया के रूप में संवधित कंपनिया के रूप में संवधित कंपनिया के रूप में संवधित कंपनिया कंपनिया के रूप में संवधित कंपनिया कंपन

क्षेत्रचार के एक बैठक आयोजित करने के निर्देश विशे हैं। उपरोक्त कथित निर्देशों के अनुपालन में कंपनी के हिक्का होती हों। उपरोक्त कथित निर्देशों के अनुपालन में कंपनी के हिक्का होती अप अध्यक्षित हों नहीं के अध्यक्षित करने के लिए अध्यक्षित के अध्यक्षित क्षेत्रचे के अध्यक्षित के अध्यक्षित अध्यक्ष और भी परिवन्द केया गया है। उपरोक्त विशेष अध्यक्ष और भी स्वेठक में अनुभावित हो जावी है तो यह एनसीएलटी के अनुवादी अनुभावन के अधीन होगी। कृषित आदेश के अनुभावन में अधि अध्यक्ष हारा अनुभावन के अभीन होगी। कृषित आदेश के अनुभावन में अधीन होगी। कृषित आदेश के अनुभावन में अधीन किया जाता है कि में सर्वाप्त करें अपनालन में और अध्यक्ष हारा अनुभावन के अनुभावन में अधीन किया जाता है कि में सर्वाप्त करें में अनुभाव के अनुभाव के अनुभाव के अनुभाव लेनहीं के अनुभाव लेनहीं के अभीन होगी। उपरोक्त के स्वाप्त के स्वाप्त



FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER. 2023

						₹ in crore unless	otnerwise state
			STANDALONE			CONSOLIDATED	
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 30/09/2023	Half Year Ended 30/09/2023	Quarter Ended 30/09/2022	Quarter Ended 30/09/2023	Half Year Ended 30/09/2023	Quarter Ended 30/09/2022
1	Total Income from Operations	Unaudited 815.21	Unaudited 1,666,72	Unaudited 1,021,48	Unaudited 1,238,82	Unaudited 2,188.87	Unaudited 1,039.98
2	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and/or Extraordinary Items and Share of Profit/(loss) of Joint venture & Associates)	14.46	40.48	51.63	58.32	98.49	51.76
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items and Share of Profit/(loss) of Joint venture & Associates)	14.46	40.48	51.63	60.23	98.57	50.22
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extrordinary items)	10.54	29.97	38.20	48.89	79.17	36.26
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) attributable to the owners of the company	10.51	29.90	37.94	44.10	74.27	40.24
6	Equity share capital	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65
7	Earning Per Share(of ₹ 2/each.) (For continuing operations)						
	a) Basic (in ₹)	0.89	2.53	3,23	3.74	6.29	3.06
	b) Diluted (in ₹)	0.89	2.53	3.23	3.74	6.29	3.06

Place: Gurugram (Haryana)

Dated: 28th Oct, 2023

1 The above is an extract of the detailed format of quarter and half year ended financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Half Year ended financial results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website at www.jbmgroup.com.

For JBM Auto Limited

Nishant Arya Vice Chairman and Managing Director DIN: 00004954

JBM AUTO LIMITED

Regd. Office: 601, Hemkunt Chamber, 89, Nehru Place, New Delhi-110 019

Email: Corp@jbmgroup.com; Website: www.jbmgroup.com Ph. 011-26427104-06; Fax: 011-26427100

CIN No: L74899DL1996PLC083073

तारीखः 28 अक्टूबर, 2023